

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 10.10.2020

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल – 32 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।**

अपहरण कर दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा । शनिवार जनपद गोण्डा के थाना मनकापुर पुलिस ने अपहरण कर दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त लालू पुत्र स्व० पंचम नि० भगवापुर ग्रण्ट थाना रेहराबाजार जनपद बलरामपुर को थाना मनकापुर पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 326 / 20, धारा 363.366.376(2)झ भादवि० व 3 / 4 पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

उक्त अभियुक्त थाना मनकापुर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बहलाफुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया था । जिसके संबंध में पीड़िता के भाई द्वारा थाना मनकापुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें मनकापुर पुलिस ने वांछित चल रहे उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर उतरौला मोड़ मनकापुर बस स्टाप के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

01 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. उस्मान खां पुत्र अल्ला बेजू नि० बनवरिया मौजा सिंगरिया थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 301 / 20, धारा 8 / 20 एन०डी०पी०एस०एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01. 01 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा ।

संक्षिप्त विवरण-

जनपद गोण्डा मे आगमन के पश्चात पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री शैलेश कुमार पाण्डेय ने जनपद मे अपराध एवं अपराधों पर नियंत्रण तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में रोक लगाने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे ।

आज दिनांक 10.10.2020 को थाना परसपुर के व0उ0नि0 रामअशीष यादव मय हमराह फोर्स के क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि एक व्यक्ति संदिग्ध रूप से दिखने पर रोक टोक कर चेक किया गया दौरान जामा तलाशी उसके कब्जे से 01 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ । अभियुक्त के विरुद्ध थाना परसपुर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. व0उ0नि0 रामअशीष यादव ।
02. उ0नि0 नीरज कुमार सिंह ।
03. हे0का0 रामशकल सिंह ।
04. का0 धर्मेन्द्र यादव ।
05. का0 अभिषेक यादव ।